

# प्रारंभिक आकारों को समझना



## अध्याय 5

### 5.1 भूमिका

अपने आस-पास हम जो भी आकार (shapes) देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं से बने होते हैं। हम अपने परिवेश में कोने, किनारे, तल, खुली वक्र और बंद वक्र देखते हैं। हम इन्हें रेखाखंडों, कोणों, त्रिभुजों, बहुभुजों और वृत्तों में संगठित करते हैं। हम पाते हैं कि ये विभिन्न साइज या मापों के होते हैं। आइए, इनकी मापों की तुलना करने की कुछ विधियाँ विकसित करें।


### 5.2 रेखाखंडों का मापना

हमने अनेक बार रेखाखंडों को देखा और खींचा है। एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनता है। और एक चतुर्भुज चार रेखाखंडों से बनता है।

**एक रेखाखंड (line segment)** एक रेखा (line) का एक निश्चित भाग होता है। इससे रेखाखंड को मापना संभव हो जाता है। प्रत्येक रेखाखंड का यह माप (measure) एक अद्वितीय संख्या है, जो उसकी लंबाई (lengths) कहलाती है। हम इस अवधारणा को रेखाखंडों की तुलना करने में प्रयोग करते हैं।

दो रेखाखंडों की तुलना करने के लिए, हम उनकी लंबाइयों के बीच एक संबंध ज्ञात करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है।


#### (i) देखकर तुलना



केवल देखकर ही क्या आप बता सकते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा रेखाखंड बड़ा है?

आप देख सकते हैं कि रेखाखंड  $\overline{AB}$  बड़ा है।

परंतु आप अपने सामान्य निर्णय के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, निम्नलिखित रेखाखंडों को देखिए :




इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों का अंतर इतना स्पष्ट नहीं है। अतः, हमें तुलना करने की अन्य विधियों की आवश्यकता है।

वास्तव में, संलग्न आकृति में,  $\overline{AB}$  और  $\overline{PQ}$  की एक ही लंबाई है। यह इतना स्पष्ट नहीं है।

इसलिए हमें रेखाखंडों की तुलना करने के लिए और अच्छी विधियों की आवश्यकता है।

### (ii) अक्स द्वारा तुलना




$\overline{AB}$  और  $\overline{CD}$  की तुलना करने के लिए, हम एक अक्स कागज़ (tracing paper) का प्रयोग करते हैं। हम अक्स कागज़ पर  $\overline{CD}$  का अक्स खींचते हैं और इस अक्स कागज़ पर बने रेखाखंड को  $\overline{AB}$  पर रखते हैं।

क्या अब आप बता सकते हैं कि  $\overline{AB}$  और  $\overline{CD}$  में से कौन बड़ा है?


यह विधि इस बात पर निर्भर करती है कि हम रेखाखंड का अक्स कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त, यदि आपको किसी और रेखाखंड से तुलना करनी हो, तो उस अन्य रेखाखंड का भी अक्स खींचना पड़ेगा। यह कठिन है, क्योंकि जब रेखाखंडों की तुलना करनी हो, तो आप सदैव रेखाखंड का अक्स ही नहीं खींचते रहेंगे।

### (iii) रूलर और डिवाइडर द्वारा तुलना

क्या आप अपने ज्यामिति बक्स में रखी वस्तुओं को पहचानते हैं? अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त इनमें एक रूलर (ruler) और एक डिवाइडर भी है।



रूलर



डिवाइडर

ध्यान दीजिए कि रूलर पर चिह्न किस प्रकार अंकित हैं। यह 15 बराबर भागों में विभाजित है। प्रत्येक भाग की लंबाई 1 सेमी है।

इनमें से प्रत्येक भाग को आगे और उपविभाजित (sub divide) किया गया है। कैसे? इस प्रकार उपविभाजित प्रत्येक भाग की लंबाई क्या है?


प्रत्येक सेंटीमीटर को दस बराबर भागों में उपविभाजित किया गया है। 1 सेमी का प्रत्येक उपविभाजित भाग 1 मिमी है।

कितने मिलीमीटरों से एक सेंटीमीटर बनता है?

1 सेमी = 10 मिमी होता है तो हम 2 सेमी और 3 मिमी को कैसे लिखेंगे? 7.7 सेमी का क्या अर्थ है?

1 मिमी 0.1 सेमी होता है,  
2 मिमी 0.2 सेमी होता है,  
इत्यादि 2.3 सेमी का अर्थ  
होगा 2 सेमी और 3 मिमी

मान लीजिए रेखाखंड AB की लंबाई मापनी है। रूलर के शून्य चिह्न को A पर रखिए। B के सम्मुख चिह्न को रूलर पर पढ़िए। इससे रेखाखंड  $\overline{AB}$  की



लंबाई ज्ञात हो जाएगी। मान लीजिए यह लंबाई 5.8 सेमी है। हम इसे लंबाई  $AB = 5.8$  सेमी लिख सकते हैं या केवल  $AB = 5.8$  सेमी लिख सकते हैं।

इस प्रक्रिया में भी त्रुटि की संभावना रहती है। रूलर की मोटाई के कारण उस पर अंकित चिह्नों को पढ़ने में कठिनाई हो सकती है।

**सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए**

1. अन्य कौन-सी त्रुटियाँ और कठिनाइयाँ हमारे सम्मुख आ सकती हैं?
2. यदि रूलर पर अंकित चिह्नों को ठीक प्रकार से न पढ़ा जाए, तो किस प्रकार की त्रुटियाँ हो सकती हैं? इनसे कैसे बचा जा सकता है?

आँख की गलत स्थिति

आँख की सही स्थिति

आँख की गलत स्थिति


वस्तु जिसे मापना है।

**स्थिति के कारण त्रुटि**

सही माप लेने के लिए आँख की स्थिति सही होनी चाहिए। आँख को चिह्न के ठीक ऊपर रखा जाए। अन्यथा तिरछा देखने पर त्रुटि हो सकती है।

क्या हम इस समस्या से बच सकते हैं? क्या इससे और कोई अच्छी विधि है? आइए, लंबाई मापने के लिए डिवाइडर (divider) का प्रयोग करें।

डिवाइडर को खोलिए। इसकी एक भुजा के अंतर्बिंदु को A पर रखिए और दूसरी भुजा के अंतर्बिंदु को B पर रखिए। इस फैलाव में बिना कोई परिवर्तन किए, डिवाइडर को रूलर पर इस प्रकार रखिए कि एक अंतर्बिंदु रूलर के शून्य चिह्न पर रहे। अब दूसरे अंतर्बिंदु के सम्मुख चिह्न को पढ़िए। यही रेखाखंड AB की लंबाई है (नीचे दी आकृति देखिए)।



### प्रयास कीजिए

1. एक पोस्टकार्ड लीजिए। उपरोक्त तकनीक का प्रयोग करके, इसकी दो आसन्न भुजाओं को मापिए।
2. कोई तीन वस्तुएँ चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। डिवाइडर और रूलर का प्रयोग करते हुए, इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए।



### प्रश्नावली 5.1

1. रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है?
  2. एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है?
  3. कोई रेखाखंड  $\overline{AB}$  खींचिए। A और B के बीच स्थित कोई बिंदु C लीजिए। AB, BC और CA की लंबाई मापिए। क्या  $AB = AC + CB$  है?  
(टिप्पणी : यदि किसी रेखा पर बिंदु A, B, C इस प्रकार स्थित हों कि  $AC + CB = AB$  है, तो निश्चित रूप से बिंदु C बिंदु A और B के बीच स्थित होता है।)
  4. एक रेखा पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि  $AB = 5$  सेमी,  $BC = 3$  सेमी और  $AC = 8$  सेमी है। इनमें से कौन-सा बिंदु अन्य दोनों बिंदुओं के बीच स्थित है?
  5. जाँच कीजिए कि संलग्न आकृति में D रेखाखंड  $\overline{AG}$  का मध्य-बिंदु है।
- 
6. B रेखाखंड  $\overline{AC}$  का मध्य-बिंदु है और C रेखाखंड  $\overline{BD}$  का मध्य बिंदु है, जहाँ A, B, C और D एक ही रेखा पर स्थित हैं। बताइए कि  $AB = CD$  क्यों है।
  7. पाँच त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जाँच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है।

### 5.3 कोण—‘समकोण’ और ‘ऋजुकोण’

आपने भूगोल (Geography) में दिशाओं के बारे में सुना है। हम जानते हैं कि चीन भारत के उत्तर में और श्रीलंका दक्षिण में है। हम यह भी जानते हैं कि सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है। कुल मिलाकर चार दिशाएँ हैं।

ये हैं : उत्तर (North) (N), दक्षिण (South) (S), पूर्व (East) (E) और पश्चिम (West) (W)।  
क्या आप जानते हैं कि उत्तर के विपरीत कौन-सी दिशा है?

पश्चिम के विपरीत कौन-सी दिशा है?

आप पहले से जो जानते हैं उसे याद कीजिए। अब हम इस ज्ञान का प्रयोग कोणों के कुछ गुणों को सीखने में करेंगे।

## इन्हें कीजिए


उत्तर की ओर मुँह करके खड़े होइए।

घड़ी की दिशा (दक्षिणावर्त दिशा) (clock-wise) में पूर्व की ओर घूम जाइए।


आप एक समकोण (right angle) के बराबर घूम गए हैं। घड़ी की दिशा में एक समकोण और घूमिए। अब आप दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े हैं।

यदि आप घड़ी की विपरीत दिशा (वामावर्त दिशा) (anti clock-wise) में एक समकोण घूम जाएँ, तो आपका मुँह किस दिशा में होगा? यह पुनः पूर्व है (क्यों?)


निम्नलिखित स्थितियों को देखिए :



आप उत्तर की ओर मुँह किए खड़े हैं



घड़ी की दिशा में एक समकोण घूमने पर अब आप पूर्व की ओर मुँह किए खड़े हैं




एक अन्य समकोण घूमने पर अंत में दक्षिण की ओर मुँह किए खड़े हैं

उत्तर की ओर मुँह होने से दक्षिण की ओर मुँह होने तक घूमने में, आप दो समकोण घूम गए हैं। क्या यह दो समकोणों के एक घूर्णन के बराबर नहीं है?

उत्तर से पूर्व तक का घूमना (घूर्णन) एक समकोण के बराबर घूमना है।

उत्तर से दक्षिण तक का घूमना दो समकोणों के बराबर घूमना है। इसे एक **ऋजुकोण (straight angle)** कहते हैं। NS एक सीधी रेखा है।

दक्षिण की ओर मुँह करके खड़े होइए।




एक ऋजुकोण के बराबर घूमिए।

अब आप किस दिशा में मुँह किए खड़े हैं?

आप उत्तर दिशा की ओर मुँह किए खड़े हैं।


उत्तर से दक्षिण तक घूमने के लिए आप एक ऋजुकोण के बराबर घूमे हैं। पुनः दक्षिण से उत्तर तक आने में आप एक ऋजुकोण के बराबर घूमे हैं। इस प्रकार, दो ऋजुकोणों के बराबर उसी दिशा में घूमने पर आप प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं।



**सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए :**


आप अपनी प्रारंभिक स्थिति तक आने के लिए, एक ही दिशा में कितने समकोण घूमेंगे?

एक ही दिशा में दो ऋजुकोण (या चार समकोण) घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक **संपूर्ण कोण (complete angle)** कहलाता है।




हम इन घूर्णनों (revolutions) को एक घड़ी पर देख सकते हैं। जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुँचती है, तो वह एक कोण (angle) पर घूम जाती है।


मान लीजिए घड़ी की एक सुई 12 से चलना प्रारंभ करके घूमती हुई 12 पर पुनः पहुँच जाती है। क्या उसने एक घूर्णन पूरा नहीं कर लिया है? अतः उसने कितने समकोण घूम लिए हैं? इन उदाहरणों (आकृतियों) को देखिए :



12 से 6 तक  
एक घूर्णन का  $\frac{1}{2}$   
या 2 समकोण



6 से 9 तक  
एक घूर्णन का  $\frac{1}{4}$   
या 1 समकोण



1 से 10 तक  
एक घूर्णन का  $\frac{3}{4}$   
या 3 समकोण

**प्रयास कीजिए**

1. आधे घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है?
2. एक-चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है?
3. एक घड़ी पर आधे घूर्णन, एक चौथाई घूर्णन और तीन-चौथाई घूर्णन के लिए पाँच अन्य स्थितियाँ दीजिए।

ध्यान दीजिए कि तीन-चौथाई घूर्णन के लिए कोण का कोई विशेष नाम नहीं है।



## प्रश्नावली 5.2

- घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम जाती है, जब वह
  - 3 से 9 तक पहुँचती है?
  - 4 से 7 तक पहुँचती है?
  - 7 से 10 तक पहुँचती है?
  - 12 से 9 तक पहुँचती है?
  - 1 से 10 तक पहुँचती है?
  - 6 से 3 तक पहुँचती है?
- एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी, यदि वह
  - 12 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में  $\frac{1}{2}$  घूर्णन करे?
  - 2 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में  $\frac{1}{2}$  घूर्णन करे?
  - 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में  $\frac{1}{4}$  घूर्णन करे?
  - 5 से प्रारंभ करे और घड़ी की दिशा में  $\frac{3}{4}$  घूर्णन करे?
- आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में
  - पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में  $\frac{1}{2}$  घूर्णन करें?
  - पूर्व की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में  $1\frac{1}{2}$  घूर्णन करें?
  - पश्चिम की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत दिशा में  $\frac{3}{4}$  घूर्णन करें?
  - दक्षिण की ओर देख रहे हों और एक घूर्णन करें?


(क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए, हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए? क्यों नहीं?)
- आप एक घूर्णन का कितना भाग घूम जाएँगे, यदि आप
  - पूर्व की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर उत्तर की ओर मुख कर लें?
  - दक्षिण की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें?
  - पश्चिम की ओर मुख किए खड़े हों और घड़ी की दिशा में घूमकर पूर्व की ओर मुख कर लें?
- घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए, जब वह
  - 3 से 6 तक पहुँचती है।
  - 2 से 8 तक पहुँचती है।
  - 5 से 11 तक पहुँचती है।
  - 10 से 1 तक पहुँचती है।
  - 12 से 9 तक पहुँचती है।
  - 12 से 6 तक पहुँचती है।



6. आप कितने समकोण घूम जाएँगे, यदि आप प्रारंभ में
- दक्षिण की ओर देख रहे हों और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएँ?
  - उत्तर की ओर देख रहे हों और घड़ी की विपरीत (वामावर्त) दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएँ?
  - पश्चिम की ओर देख रहे हों और पश्चिम की ओर घूम जाएँ?
  - दक्षिण की ओर देख रहे हों और उत्तर की ओर घूम जाएँ?
7. घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी, यदि वह प्रारंभ करे
- 6 से और 1 समकोण घूम जाए?
  - 8 से और 2 समकोण घूम जाए?
  - 10 से और 3 समकोण घूम जाए?
  - 7 से और 2 ऋजुकोण घूम जाए?

#### 5.4 कोण-‘न्यून’, ‘अधिक’ और ‘प्रतिवर्ती’

हमने देखा कि एक समकोण और एक ऋजुकोण का क्या अर्थ है। परंतु जो कोण हमें देखने को मिलते हैं वे सदैव इन दोनों प्रकारों के ही नहीं होते हैं। एक सीढ़ी द्वारा दीवार से (या फर्श से) बनाया गया कोण न तो समकोण है और न ही ऋजुकोण है।




#### सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए

क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से छोटे हैं?

क्या कुछ ऐसे कोण हैं जो समकोण से बड़े हैं?

क्या आपने बड़ई का वर्ग देखा है? यह अंग्रेज़ी वर्णमाला के अक्षर ‘L’ जैसा होता है। वह इससे समकोणों की जाँच करता है। आइए, हम भी समकोणों की जाँच के लिए इसी प्रकार के ‘टेस्टर’ (tester) को बनाएँ।




#### इन्हें कीजिए



चरण 1

कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए



चरण 2

इसे बीच से मोड़िए



चरण 3

सीधे किनारे पर पुनः मोड़िए।  
आपका टेस्टर तैयार है।

अपने द्वारा ‘बनाए गए’ समकोण टेस्टर को देखिए (क्या हम इसे RA टेस्टर कहें?) क्या इसका एक किनारा दूसरे पर सीधा खड़ा है?




मान लीजिए कोनों वाला कोई आकार दिया हुआ है। आप इसके कोनों पर बने कोणों की जाँच RA टेस्टर द्वारा कर सकते हैं।


क्या इसके किनारे एक कागज़ के कोणों से दिखाई देते हैं? यदि हाँ, तो यह एक समकोण दर्शाता है।

### प्रयास कीजिए

1. घड़ी की घंटे वाली सुई 12 से 5 तक चलती है। क्या इसका घूर्णन 1 समकोण से अधिक है?



2. घड़ी पर यह कोण कैसा दिखता है? घड़ी की घंटे वाली सुई 5 से 7 तक चलती है। क्या इस सुई द्वारा घूमा गया कोण 1 समकोण से अधिक है?



3. घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जाँच RA टेस्टर द्वारा कीजिए।


- (a) 12 से 2 तक जाना
- (b) 6 से 7 तक जाना
- (c) 4 से 8 तक जाना
- (d) 2 से 5 तक जाना

4. कोने वाले पाँच भिन्न-भिन्न आकार लीजिए। कोनों के नाम लिखिए। अपने टेस्टर द्वारा इन कोणों की जाँच कीजिए और प्रत्येक स्थिति के परिणाम को एक सारणी के रूप में निम्न प्रकार लिखिए :

| कोने | से छोटा | से बड़ा |
|------|---------|---------|
|      |         |         |
| A    | .....   | .....   |
| B    | .....   | .....   |
| C    | .....   | .....   |
| ⋮    |         |         |

## अन्य नाम


- समकोण से छोटा कोण **न्यूनकोण (acute angle)** कहलाता है। ये कोण न्यून कोण हैं :



छत का ऊपरी सिरा



सी-सॉ (see-saw)




पुस्तक खोलना

क्या आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक घूर्णन के एक-चौथाई से छोटा है? अपने RA टेस्टर से इनकी जाँच कीजिए।

- यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक ऋजुकोण से छोटा है, तो वह एक **अधिक कोण (obtuse angle)** कहलाता है। ये कोण अधिक कोण हैं :



घर




पुस्तक पढ़ने की डेस्क

क्या आप देख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक  $\frac{1}{4}$  घूर्णन से अधिक है और  $\frac{1}{2}$  घूर्णन से कम है? इसकी जाँच करने में आपका RA टेस्टर सहायता कर सकता है।

पिछले उदाहरणों में भी अधिक कोणों की पहचान कीजिए।

- एक **प्रतिवर्ती कोण (reflex angle)** एक ऋजुकोण से बड़ा होता है और एक संपूर्ण कोण से छोटा होता है। यह इस आकृति में दर्शाए प्रकार का होता है (घड़ी पर कोण को देखिए)। आपने जो इससे पहले आकृतियाँ बनाई थीं, क्या उनमें प्रतिवर्ती कोण बने थे? आप इनकी जाँच किस प्रकार करेंगे?



## प्रयास कीजिए

1. आप अपने आस-पास देखिए और कोनों पर मिलने वाले किनारों को पहचानिए, जो कोण बना रहे हों। ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए।
2. ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए, जहाँ न्यूनकोण बन रहे हों।
3. ऐसी दस स्थितियाँ लिखिए, जहाँ समकोण बन रहे हों।
4. ऐसी पाँच स्थितियाँ लिखिए, जहाँ अधिक कोण बन रहे हों।
5. ऐसी पाँच स्थितियाँ लिखिए, जहाँ प्रतिवर्ती कोण बन रहे हों।



## प्रश्नावली 5.3

1. निम्न को सुमेलित (match) कीजिए :

(i) ऋजुकोण

(a)  $\frac{1}{4}$  घूर्णन से कम

(ii) समकोण

(b)  $\frac{1}{2}$  घूर्णन से अधिक

(iii) न्यून कोण

(c)  $\frac{1}{2}$  घूर्णन

(iv) अधिक कोण


(d)  $\frac{1}{4}$  घूर्णन

(v) प्रतिवर्ती कोण

(e)  $\frac{1}{4}$  घूर्णन और  $\frac{1}{2}$  घूर्णन के बीच में

(f) एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन


2. निम्न में से प्रत्येक कोण को समकोण, ऋजुकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण या प्रतिवर्ती कोण के रूप में वर्गीकृत कीजिए :



(a)




(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

## 5.5 कोणों का मापन

अपने बनाए गए 'RA टेस्टर' की सहायता से, हमने कोणों की समकोण से तुलना की। इससे हम कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोणों में वर्गीकृत करने में भी समर्थ हो गए थे।

परंतु इससे कोणों की परिशुद्धता की तुलना नहीं हो पाती है। इससे यह पता नहीं लगता कि दिए हुए दो अधिक कोणों में कौन बड़ा है। इसलिए, कोणों की तुलना अधिक परिशुद्धता से करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें 'माप' लिया जाए। ऐसा हम एक चाँदे (protractor) की सहायता से कर सकते हैं।

### कोण का माप

हम अपनी इस माप को डिग्री माप (अंश माप) (degree measure) कहते हैं। एक संपूर्ण घूर्णन को 360 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग एक अंश (degree) कहलाता है। हम तीन सौ साठ अंश कहने के लिए  $360^\circ$  लिखते हैं।


### सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए

$\frac{1}{2}$  घूर्णन में कितनी डिग्री हैं? 1 समकोण में कितनी डिग्री हैं?

1 ऋजुकोण में कितनी डिग्री (अंश) हैं? कितने समकोणों से  $180^\circ$  बनते हैं? कितने समकोणों से  $360^\circ$  बनते हैं?

### इन्हें कीजिए


1. एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्ताकार आकृति बनाइए या इसी मान की एक वृत्ताकार शीट लीजिए।




2. इसे दो बार मोड़िए जिससे दर्शाई गई आकृति प्राप्त हो। इसे एक चतुर्थांश (quadrant) कहते हैं।




3. इसे खोल लीजिए। आपको एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा। जिसके बीच में एक मोड़ का निशान है।




4. इस वृत्त को मोड़कर चतुर्थांश बना लीजिए। इस चतुर्थांश को एक बार पुनः मोड़कर दर्शाई हुई आकृति प्राप्त कीजिए। अब कोण  $90^\circ$  का आधा, अर्थात्  $45^\circ$  है।




5. अब इसे खोल लीजिए। दोनों ओर एक-एक मोड़ का निशान दिखाई दे रहा है। आधार रेखा की बाईं ओर वाले पहले मोड़ के निशान पर  $45^\circ$  लिखिए।



6. दूसरी ओर वाले मोड़ के निशान पर  $90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$  लिखा जाएगा।




7. कागज़ को अब  $45^\circ$  तक (चतुर्थांश के आधे) मोड़िए। अब इसका आधा कीजिए। आधार रेखा के बाईं ओर वाला पहला मोड़ का निशान  $45^\circ$  का आधा, अर्थात्  $22\frac{1}{2}^\circ$  दर्शाएगा।  $135^\circ$  के बाईं ओर का कोण  $157\frac{1}{2}^\circ$  है।




### चाँदा


आपके ज्यामिति बक्स में आपको चाँदा बना बनाया मिल जाएगा। इसके वक्रिय किनारे (edge) को 180 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग एक अंश (डिग्री) (degree) कहलाता है। इस पर चिह्न दाईं या बाईं ओर से प्रारंभ करके क्रमशः बाईं या दाईं ओर तक  $0^\circ$  से  $180^\circ$  तक लगे होते हैं।



मान लीजिए आप कोई कोण ABC को मापना चाहते हैं।



$\angle ABC$  दिया है




$\angle ABC$  का मापना

1. चाँदे को इस प्रकार रखिए कि इसके सीधे किनारे का मध्य-बिंदु (आकृति में M) कोण के शीर्ष B पर स्थित हो।
2. चाँदे को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि किरण BC इस सीधे किनारे के अनुदिश रहे।
3. चाँदे पर दो 'स्केल' (scale) हैं : वह स्केल पढ़िए जिससे किरण BC चिह्न  $0^\circ$  से मिल रही है।
4. वक्रिय किनारे पर किरण AB द्वारा दर्शित चिह्न कोण का अंशीय माप (degree measure) ज्ञात कराता है।  
आकृति में यह  $40^\circ$  है।  
हम इसे  $m \angle ABC = 40^\circ$  या केवल  $\angle ABC = 40^\circ$  लिखते हैं।




### प्रश्नावली 5.4


1. निम्न के क्या माप हैं :  
(i) एक समकोण? (ii) एक ऋजुकोण?
2. बताइए सत्य (T) या असत्य (F) :  
(a) एक न्यून कोण का माप  $< 90^\circ$  है।  
(b) एक अधिक कोण का माप  $< 90^\circ$  है।  
(c) एक प्रतिवर्ती कोण का माप  $> 180^\circ$  है।  
(d) एक संपूर्ण घूर्णन का माप  $= 360^\circ$  है।  
(e) यदि  $m \angle A = 53^\circ$  और  $m \angle B = 35^\circ$  है, तो  $m \angle A > m \angle B$  है।
3. निम्न के माप लिखिए :  
(a) कुछ न्यून कोण  
(b) कुछ अधिक कोण  
(प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए।)
4. निम्न कोणों को चाँदे से मापिए और उनके माप लिखिए :




(a)



(b)



(c)




(d)


5. किस कोण का माप बड़ा है?  
पहले आकलन (estimate) कीजिए और फिर मापिए।

कोण A का माप =

कोण B का माप =







6. निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए।




7. न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजुकोण से रिक्त स्थानों को भरिए :


- (a) वह कोण, जिसका माप एक समकोण के माप से कम है, ..... होता है।  
 (b) वह कोण, जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो, ..... होता है।  
 (c) वह कोण जिसका माप दो समकोणों के योग के बराबर है ..... होता है।  
 (d) यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के माप के बराबर है, तो प्रत्येक कोण ..... होता है।  
 (e) यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजुकोण के माप के बराबर है, और इनमें से एक कोण न्यून कोण है, तो दूसरा कोण ..... होना चाहिए।
8. नीचे दी आकृति में दिए प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए (पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चाँद से मापिए) :




9. नीचे दी प्रत्येक आकृति में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण का माप ज्ञात कीजिए :



प्रातः 9:00



दोपहर 1:00



सायं 6:00


10. खोज कीजिए :

दी हुई आकृति में चाँदा  $30^\circ$  दर्शा रहा है। इसी आकृति को एक आवर्धन शीशे (magnifying glass) द्वारा देखिए। क्या यह कोण बड़ा हो जाता है?

क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है?



11. मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए :



| कोण    | $\angle AOB$ | $\angle AOC$ | $\angle BOC$ | $\angle DOC$ | $\angle DOA$ | $\angle DOB$ |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| माप    |              |              |              |              |              |              |
| प्रकार |              |              |              |              |              |              |

## 5.6 लंब रेखाएँ

यदि दो रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, तो वे रेखाएँ एक दूसरे पर लंब (perpendicular) रेखाएँ कहलाती हैं। यदि एक रेखा AB रेखा CD पर लंब है, तो इसे  $AB \perp CD$  लिखते हैं।

सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए


यदि  $AB \perp CD$  है, तो हमें क्या यह भी कहना चाहिए कि  $CD \perp AB$  है?

हमारे आस-पास लंब रेखाएँ!

आप अपने आस-पास की वस्तुओं में से लंब रेखाओं (या रेखाखंडों) के अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला का अक्षर T इनमें से एक है। क्या कोई और अक्षर भी है, जो लंबों का उदाहरण है?



एक पोस्टकार्ड को लीजिए। क्या इसके किनारे परस्पर लंब हैं? मान लीजिए।  $MN$  बिंदु  $M$  से होकर जाने वाली रेखाखंड  $AB$  पर कोई रेखा लंब है। क्या रेखा  $MN$  रेखाखंड  $AB$  को दो बराबर भागों में विभाजित करती है?



क्या  $MN$  रेखाखंड  $AB$  पर लंब है?

इस प्रकार,  $MN$  रेखाखंड  $AB$  को समद्विभाजित करती है (अर्थात् दो बराबर भागों में विभाजित करती है) और उस पर लंब भी है।


इसलिए, हम कहते हैं कि रेखा  $MN$  रेखाखंड  $AB$  का लंब समद्विभाजक (perpendicular bisector) है।

इसकी रचना करना आप बाद में सीखेंगे।



### प्रश्नावली 5.5

- निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं?
  - मेज़ के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएँ
  - रेल पथ की पटरियाँ
  - अक्षर  $L$  बनाने वाले रेखाखंड
  - अक्षर  $V$  बनाने वाले रेखाखंड
- मान लीजिए रेखाखंड  $PQ$  रेखाखंड  $XY$  पर लंब है। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु  $A$  पर प्रतिच्छेद करते हैं।  $\angle PAY$  की माप क्या है?
- आपके ज्यामिति बक्स में दो सेट स्क्वेयर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है?
- इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा  $l$  रेखा  $m$  पर लंब है।




- क्या  $CE = EG$  है?
- क्या रेखा  $PE$  रेखाखंड  $CG$  को समद्विभाजित करती है?
- कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए  $PE$  लंब समद्विभाजक है।
- क्या निम्नलिखित सत्य हैं?
  - $AC > FG$
  - $CD = GH$
  - $BC < EH$

## 5.7 त्रिभुजों का वर्गीकरण

क्या आपको सबसे कम भुजाओं वाले बहुभुज के बारे में याद है? यह एक त्रिभुज (triangle) है। आइए, विभिन्न प्रकार के जो त्रिभुज हो सकते हैं, उन्हें देखें।

### इन्हें कीजिए

आइए, नीचे दिए हुए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चाँदें और रूलर से मापें। दी हुई सारणी में इनकी मापों को भरिए :



| त्रिभुज के कोणों की माप                | आप कोणों के बारे में क्या कह सकते हैं? | त्रिभुज की भुजाओं की माप |
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| (a) ...60°..., ...60°..., ...60°....., | सभी कोण बराबर हैं                      |                          |
| (b) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (c) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (d) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (e) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (f) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (g) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |
| (h) ....., ....., .....,               | ..... कोण .....,                       |                          |


उपरोक्त कोण, त्रिभुज और उनकी भुजाओं की मापों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इनके बारे में कोई बात कही जा सकती है?

**आप क्या प्राप्त करते हैं?**

- त्रिभुज जिनके सभी कोण बराबर हैं।  
यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण बराबर हैं, तो इसकी भुजाएँ भी ..... हैं।
- त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएँ बराबर हैं।  
यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएँ बराबर हैं, तो उसके कोण भी ..... हैं।
- त्रिभुज जिनमें दो कोण बराबर हैं और दो भुजाएँ बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएँ बराबर हैं, तो उसके ..... कोण बराबर होते हैं।
- त्रिभुज जिनमें कोई भी दो भुजाएँ बराबर नहीं हैं। यदि किसी त्रिभुज के कोई भी दो कोण बराबर नहीं हैं, तो उसकी कोई भी दो भुजाएँ बराबर नहीं होती हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएँ बराबर नहीं हैं, तो उसके तीनों कोण भी ..... नहीं हैं।

कुछ और त्रिभुज लीजिए और उपरोक्त कथनों की जाँच कीजिए। इसके लिए, हमें त्रिभुजों के कोण और उनकी भुजाओं को पुनः मापना पड़ेगा।

त्रिभुजों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें विशेष नाम दिए गए हैं। आइए, देखें कि ये क्या हैं।




**भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण**

एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर नहीं हों, **विषमबाहु त्रिभुज (Scalene triangle)** कहलाता [(c), (e)] है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएँ बराबर हों, एक **समद्विबाहु त्रिभुज (Isosceles triangle)** कहलाता [(b), (f)] है।


त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हों, **समबाहु त्रिभुज (Equilateral triangle)** कहलाता है। [(a), (d)] इन परिभाषाओं का प्रयोग करके उन सभी त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए, जिनकी भुजाएँ आप पहले माप चुके हैं।

### कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण


यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण  $90^\circ$  से कम हो, तो वह एक **न्यूनकोण त्रिभुज (acute angled triangle)** कहलाता है। यदि इसका कोई कोण समकोण हो, तो वह त्रिभुज एक **समकोण त्रिभुज (right angled triangle)** कहलाता है। यदि इसका कोई कोण  $90^\circ$  से अधिक हो, तो वह त्रिभुज एक **अधिक कोण त्रिभुज (obtuse angled triangle)** कहलाता है।



न्यून कोण त्रिभुज



समकोण त्रिभुज



अधिक कोण त्रिभुज

उपरोक्त परिभाषाओं के अनुसार, उन त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए जिनके कोण आप पहले माप चुके हैं। इनमें से कितने समकोण त्रिभुज थे?

**इन्हें कीजिए**



निम्न के रफ चित्र खींचने का प्रयत्न कीजिए :

- एक विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज
- एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज
- एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज
- एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज

क्या आप सोचते हैं कि निम्न आकृति खींचना संभव है :

- एक अधिक कोण समबाहु त्रिभुज?
- एक समकोण समबाहु त्रिभुज?
- एक त्रिभुज जिसमें दो समकोण हों?

सोचिए, चर्चा कीजिए और फिर अपने निष्कर्षों को लिखिए।



### प्रश्नावली 5.6

1. निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए :

- त्रिभुज जिसकी भुजाएँ 7 सेमी, 8 सेमी और 9 सेमी हैं।
- $\triangle ABC$  जिसमें  $AB = 8.7$  सेमी,  $AC = 7$  सेमी और  $BC = 6$  सेमी है।
- $\triangle PQR$  जिसमें  $PQ = QR = RP = 5$  सेमी है।
- $\triangle DEF$  जिसमें  $m \angle D = 90^\circ$  है।
- $\triangle XYZ$  जिसमें  $m \angle Y = 90^\circ$  और  $XY = YZ$  है।
- $\triangle LMN$  जिसमें  $m \angle L = 30^\circ$ ,  $m \angle M = 70^\circ$  और  $m \angle N = 80^\circ$  है।

2. निम्न का सुमेलन कीजिए :







**त्रिभुज के माप**

- (i) समान लंबाई की तीन भुजाएँ
- (ii) समान लंबाई की दो भुजाएँ
- (iii) अलग-अलग लंबाइयों की सभी भुजाएँ
- (iv) 3 न्यूनकोण
- (v) 1 समकोण
- (vi) 1 अधिक कोण
- (vii) दो बराबर लंबाइयों की भुजाओं के साथ 1 समकोण

**त्रिभुज का प्रकार**

- (a) विषमबाहु समकोण त्रिभुज
- (b) समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
- (c) अधिक कोण त्रिभुज
- (d) समकोण त्रिभुज
- (e) समबाहु त्रिभुज
- (f) न्यून कोण त्रिभुज
- (g) समद्विबाहु त्रिभुज

3. निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का दो प्रकार से नामकरण कीजिए (आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं।)




4. माचिस की तीलियों की सहायता से त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं। क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं?

- (a) 3 माचिस की तीलियाँ
- (b) 4 माचिस की तीलियाँ
- (c) 5 माचिस की तीलियाँ
- (d) 6 माचिस की तीलियाँ

(ध्यान रखिए कि आपको प्रत्येक स्थिति में सभी उपलब्ध माचिस की तीलियों का उपयोग करना है)।

प्रत्येक स्थिति में त्रिभुज के प्रकार का नाम बताइए। यदि आप त्रिभुज नहीं बना पाते हैं, तो उसके कारण के बारे में सोचिए।



## 5.8 चतुर्भुज

आपको याद होगा कि चार भुजाओं का बहुभुज एक **चतुर्भुज (quadrilateral)** कहलाता है।

### इन्हें कीजिए

1. दो डंडी लीजिए और उन्हें इस प्रकार रखिए कि उनका एक-एक सिरा एक सिरे पर मिले। अब डंडियों के एक अन्य युग्म को इस प्रकार रखिए कि उनके सिरे डंडियों के पहले युग्म के स्वतंत्र सिरों से जुड़ जाएँ। इस प्रकार हमें क्या आकृति प्राप्त होती है?




यह एक चतुर्भुज है, जो आप सामने देख रहे हैं। इस चतुर्भुज

की भुजाएँ  $\overline{AB}$ ,  $\overline{BC}$ ,  $\underline{\hspace{1cm}}$ ,  $\underline{\hspace{1cm}}$  हैं।

इस चतुर्भुज के चार कोण हैं। ये  $\angle BAD$ ,  $\angle ADC$ ,  $\angle DCB$ , और  $\underline{\hspace{1cm}}$  हैं।

$\overline{AC}$  इसका एक विकर्ण है। अन्य विकर्ण कौन सा है? सभी भुजाओं और विकर्णों की लंबाइयाँ मापिए। सभी कोणों को भी मापिए।



2. जैसा आपने ऊपर क्रियाकलाप किया है, चार डंडियाँ लेकर देखिए कि क्या आप इनसे ऐसा चतुर्भुज बना सकते हैं जिसमें
  - (a) चारों कोण न्यून कोण हैं।
  - (b) एक कोण अधिक कोण है।
  - (c) एक कोण समकोण है।
  - (d) दो कोण अधिक कोण हैं।
  - (e) दो कोण समकोण हैं।
  - (f) विकर्ण परस्पर समकोण पर हैं।

### आयत

#### इन्हें कीजिए

आपके ज्यामिति बक्स में दो सेट स्क्वेयर हैं। एक  $30^\circ-60^\circ-90^\circ$  सेट स्क्वेयर है और दूसरा  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  सेट स्क्वेयर।


आप और आपका मित्र मिलकर इस क्रिया को कर सकते हैं :

- (a) आप दोनों के पास एक-एक  $30^\circ-60^\circ-90^\circ$  सेट स्क्वेयर है। इनको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए। क्या आप इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं? इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है?

यह चतुर्भुज एक **आयत (rectangle)** है।


आयत का एक और गुण जो आप स्पष्ट रूप से यहाँ देख सकते हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।

आप अन्य कौन से गुण ज्ञात कर सकते हैं?




(b) यदि अन्य सेट स्क्वेयर  $45^\circ-45^\circ-90^\circ$  के युग्म का प्रयोग करें, तो आपको एक अन्य चतुर्भुज प्राप्त होगा। यह एक **वर्ग** (square) है।

क्या आप देख सकते हैं कि सभी भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हैं? आप इसके कोणों और विकर्णों के बारे में क्या कह सकते हैं? वर्ग के कुछ अन्य गुण ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए।




(c) यदि आप  $30^\circ-60^\circ-90^\circ$  सेट स्क्वेयरों को आकृति में दर्शाए अनुसार एक अन्य स्थिति में रखें, तो आपको एक **समांतर चतुर्भुज (parallelograms)** प्राप्त होता है। क्या आप देख रहे हैं कि इसकी सम्मुख भुजाएँ समांतर हैं? क्या इसकी सम्मुख भुजाएँ बराबर हैं?

क्या इसके विकर्ण बराबर हैं?




(d) यदि आप चार  $30^\circ-60^\circ-90^\circ$  सेट स्क्वेयरों का प्रयोग करें, तो आपको एक **समचतुर्भुज (rhombus)** प्राप्त होता है।



(e) यदि आप आकृति में दर्शाए अनुसार कई सेट स्ववेयरों का प्रयोग करें, तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है।

यह एक समलंब (trapezium) है।



यहाँ आपकी खोजों के सारांश की एक रूपरेखा दी जा रही है। इसे पूरा कीजिए।

| चतुर्भुज        | सम्मुख भुजाएँ |       | सभी भुजाएँ | सम्मुख कोण | विकर्ण |            |
|-----------------|---------------|-------|------------|------------|--------|------------|
|                 | समांतर        | बराबर | बराबर      |            | बराबर  | परस्पर लंब |
| समांतर चतुर्भुज | हाँ           | हाँ   | नहीं       | हाँ        | नहीं   | नहीं       |
| आयत             |               |       | नहीं       |            |        |            |
| वर्ग            |               |       |            |            |        | हाँ        |
| समचतुर्भुज      |               |       |            | हाँ        |        |            |
| समलंब           |               | नहीं  |            |            |        |            |








### प्रश्नावली 5.7

- सत्य (T) या असत्य (F) कहिए :
  - आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है।
  - आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है।
  - वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं।
  - समचतुर्भुज की सभी भुजाएँ बराबर लंबाई की होती हैं।
  - समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएँ बराबर लंबाई की होती हैं।
  - समलंब की सम्मुख भुजाएँ समांतर होती हैं।
- निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :
  - वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है।
  - आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है।
  - वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है।
  - वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है।
  - वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है।
- एक बहुभुज सम (regular) होता है, यदि उसकी सभी भुजाएँ बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। क्या आप एक सम चतुर्भुज (regular quadrilateral) की पहचान कर सकते हैं?


## 5.9 बहुभुज

अभी तक आपने 3 और 4 भुजाओं वाले बहुभुजों (polygons) का अध्ययन किया है। जिन्हें क्रमशः त्रिभुज और चतुर्भुज कहते हैं। अब हम बहुभुजों की अवधारणा को ऐसी आकृतियों के रूप में विस्तृत करने का प्रयत्न करेंगे, जिनमें चार से अधिक भुजाएँ होंगी। हम बहुभुजों को उनकी भुजाओं की संख्याओं के आधार पर निम्न प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं :



| भुजाओं की संख्या | नाम      | आकृति                                                                             |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3                | त्रिभुज  |  |
| 4                | चतुर्भुज |  |
| 5                | पंचभुज   |  |
| 6                | षड्भुज   |  |
| 8                | अष्टभुज  |  |

आप इस प्रकार के आकार (shapes) अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवार, अलमारियाँ, ब्लैकबोर्ड, अभ्यास-पुस्तिकाएँ आदि सभी आयत के आकार के होते हैं। फर्श की टाइल भी आयताकार होती हैं। त्रिभुज की दृढ़ता वाली प्रकृति के कारण इस आकार का इंजीनियरिंग निर्माणों में लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जाता है।



निर्माण कार्यों में त्रिभुज का अनुप्रयोग होता है।


मधुमक्खी अपना घर बनाने में षड्भुज के आकार की उपयोगिता जानती हैं।

अपने परिवेश में देखिए कि आप इन आकारों को कहाँ-कहाँ पा सकते हैं।



### प्रश्नावली 5.8


- जाँच कीजिए कि निम्न में से कौन-सी आकृतियाँ बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है, तो कारण बताइए।



(a)



(b)




(c)




(d)

2. प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए :




(a)



(b)



(c)



(d)

इनमें से प्रत्येक के दो और उदाहरण बनाइए।

3. एक सम षड्भुज (regular hexagon) का एक रफ़ चित्र खींचिए। उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींच लिया है।
4. एक सम अष्टभुज (regular octagon) का रफ़ चित्र खींचिए। [यदि आप चाहें, तो वर्गीकृत कागज़ (squared paper) का प्रयोग कर सकते हैं।] इस अष्टभुज के ठीक चार शीर्षों को जोड़कर एक आयत खींचिए।
5. किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं दो शीर्षों (आसन्न शीर्षों को छोड़कर) को जोड़ने से प्राप्त होता है (यह इसकी भुजाएँ नहीं होती हैं)। एक पंचभुज का एक रफ़ चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए।

### हमने क्या चर्चा की?

1. एक रेखाखंड के दोनों अंतःबिंदुओं के बीच की दूरी उसकी लंबाई कहलाती है।
2. रेखाखंडों की तुलना करने के लिए एक अंशांकिक रूलर और एक डिवाइडर उपयोगी होते हैं।
3. जब घड़ी की एक सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो हमें कोण का एक उदाहरण प्राप्त होता है।

सुई का एक पूरा चक्कर 1 घूर्णन कहलाता है।

समकोण  $\frac{1}{4}$  घूर्णन है और ऋजुकोण  $\frac{1}{2}$  घूर्णन है। कोणों को अंशों (degrees) में मापने के लिए हम चाँदे का प्रयोग करते हैं।

समकोण की माप  $90^\circ$  और ऋजुकोण की माप  $180^\circ$  होती है। एक कोण जिसकी माप समकोण से कम हो, न्यून कोण कहलाता है और जिसकी माप समकोण से अधिक और ऋजुकोण से कम हो अधिक कोण कहलाता है।

एक प्रतिवर्ती कोण ऋजुकोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है।

4. दो प्रतिच्छेदी रेखाएँ परस्पर लंब कहलाती हैं, यदि उनके बीच का कोण  $90^\circ$  हो।
5. एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक उस रेखाखंड पर लंब होता है और उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है।

6. कोणों के आधार पर त्रिभुजों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है :

| त्रिभुज के कोणों के प्रकार | नाम               |
|----------------------------|-------------------|
| प्रत्येक कोण न्यून कोण     | न्यून कोण त्रिभुज |
| एक कोण समकोण               | समकोण त्रिभुज     |
| एक कोण अधिक कोण            | अधिक कोण त्रिभुज  |

7. भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है :

| त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाइयाँ  | नाम                |
|----------------------------------|--------------------|
| तीनों भुजाएँ असमान लंबाइयों वाली | विषमबाहु त्रिभुज   |
| दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर      | समद्विबाहु त्रिभुज |
| तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर   | समबाहु त्रिभुज     |

8. बहुभुजों के नाम उनकी भुजाओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार हैं :

| भुजाओं की संख्या | बहुभुज का नाम |
|------------------|---------------|
| 3                | त्रिभुज       |
| 4                | चतुर्भुज      |
| 5                | पंचभुज        |
| 6                | षड्भुज        |
| 8                | अष्टभुज       |

9. चतुर्भुजों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है :

| गुण                                 | चतुर्भुज का नाम |
|-------------------------------------|-----------------|
| समांतर रेखाओं के दो युग्म           | समांतर चतुर्भुज |
| 4 समकोण वाला समांतर चतुर्भुज        | आयत             |
| 4 बराबर भुजाओं वाला समांतर चतुर्भुज | समचतुर्भुज      |
| 4 समकोण वाला समचतुर्भुज             | वर्ग            |